




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 266]
No. 266]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2002/आश्विन 18, 1924
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2002/ASVINA 18, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2002

सं. 42/2002—2007

विषय : तलचर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II (4 × 500 मेगावाट), को उर्जा उत्पादन हेतु मान्य निर्यात लाभ।

फा. सं 01/92/180/0046/ए एम 00/पी सी-II. — निर्यात और आयात नीति 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा सार्वजनिक सूचना सख्या 38 (आर ई-99)/1997—2002 दिनांक 5-11-1999 जिसके द्वारा उक्त विषय पर उल्लिखित उर्जा परियोजनाओं (प्रोजेक्टों) को मान्य निर्यात लाभ मंजूर करना अधिमूर्चित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

“तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेज-II (4 × 500 मेगावाट) के मामले में, चूंकि विश्व बैंक कोष उपलब्ध न था, मैसर्स एनटीपीसी को इस परियोजना हेतु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लिए गये निम्नलिखित मान्य निर्यात लाभों के समतुल्य नकद राशि लौटानी होगी :—

- (i) निर्यात आयात नीति, 1997—2002 (संशोधित संस्करण मार्च, 1999) के पैरा 10.3(क) (अग्रिम अन्तरवर्ती लाइसेंस/विशेष अग्रदाय लाइसेंस) और पैरा 10.3(ख) (मान्य निर्यात शुल्क वापसी) के तहत 31-3-2000 तक प्राप्त किये गये लाभ।
 - (ii) निर्यात आयात नीति, 1997—2002 (संशोधित संस्करण मार्च, 2001) के पैरा 10.3(ग)/निर्यात आयात नीति 2002—2007 के पैरा 8.3(ग) (अन्तिम उत्पाद शुल्क की वापसी) के तहत 1-4-2000 के बाद की अवधि हेतु प्राप्त किये गये लाभ।
2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानमिह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 10th October, 2002

No. 42/2002—2007**Subject : Deemed export benefits to Talcher Super Thermal Power Project Stage II (4 × 500 MW), for Power Generation.**

F. No. 01/92/180/0046/AM 00/PC-II.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002—2007 and paragraph 1.1 of Handbook of Procedures, (Vol. I), 2002—2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Public Notice No. 38 (RE-99)/1997—2002 dated 5-11-1999 vide which transitional arrangements were notified allowing deemed export benefits to the power projects mentioned on the subject.

In case of Talcher Super Thermal Power Project Stage-II (4 × 500 MW) since the World Bank funding was not available, M/s NTPC shall have to return the cash equivalent of the following deemed export benefits availed by their suppliers for this project :

- (i) Benefits obtained under Para 10.3(a) (Advance Intermediate Licence/Special Imprest Licence) and Para 10.3(b) (Deemed export drawback) of Exim Policy, 1997—2002 (revised Edition : March, 1999) up to 31-3-2000.
- (ii) Benefits obtained under Para 10.3(c) (Refund of Terminal Excise Duty) of Exim Policy, 1997—2002 (Revised Edition : March, 2001)/Para 8.3(c) (Refund of Terminal Excise Duty) of Exim Policy, 2002—2007 for the period from 1-4-2000 onwards.

2. This issues in public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade